

Ref No.: PSL/2019-20/CS/SE/31

Date: 2<sup>nd</sup> August, 2019

To.

Listing Department

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, 5th Floor

Plot No. C/1, G Block

Bandra Kurla Complex

Bandra (E), Mumbai -400 051

Symbol: DIAMONDYD

To.

Corporate Relationship Department

**BSE** Limited

P.J. Towers,

Dalal Street

Mumbai- 400 001

Security Code: 540724

Security ID : DIAMONDYD

Sub: Newspaper clipping regarding publication of notice of the Board Meeting on 9<sup>th</sup> August, 2019

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find enclosed herewith the clipping of newspaper advertisement for Meeting of Board of Directors on 9<sup>th</sup> August, 2019, published in the following editions:

- Financial Express English (National Daily newspaper) on 2<sup>nd</sup> August, 2019
- Dabang Dunia Hindi (Daily newspaper of the Region) on 2<sup>nd</sup> August, 2019

Thanking you,

Yours faithfully,

For Prataap Snacks Limited

Om Prakash Pandey

Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

**Prataap Snacks Limited** 

(Formerly known as Prataap Snacks Pvt. Ltd.)

Office: Khasra No. 378/2, 378/1/4, Nemawar Road, Near Makrand House, Gram: Palda, Dist.: Indore (M.P.) India Phone: ++91-731-2437600, 2437642-10 E-mail: info@yellowdiamond.in CIN No. L15311MP2009PLC021746

Place: Delhi

Date: 31.07.2019

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

"IMPORTANT"

## SKYLINE INDIA LIMITED

Regd. Office: 1E/4, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 Email Id: skylineindia96@gmail.com; Tel No.: +91 11 23541110 CIN: L51909DL1996PLC075875, Website: www.skylineindia.co.in

Pursuant to regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India

(Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015 ("Listing

Regulations\*) that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, August 10°, 2019 at 11:00 A.M. inter-alia to Consider and approve the Unaudited Financial Results along with Limited Review Report of the Company for the Quarter ended as on The said Notice may be accessed on the Company's website at http://www.skylineindia.co.in and may also be accessed on the

Stock Exchange websites at https://www.msei.in Pursuant to this, the Company has decided that the close period (i.e. closure of trading window) under the "Code of Company to Regulate, Monitor and Report Trading" would continue till the end of 48 hours after the results are made public on August 10th, 2019.

(Dinesh Kumar Shindi)

Company Secretary & Compliance Officer

For Skyline India Limited Chennai

# MADRAS FERTILIZERS LIMITED (A Govt. of India Undertaking) Regd. Office : Manali, Chennai 600068

CIN No.L32201TN1966GOI005469 Website: www.madrasfert.co.in NOTICE

NOTICE is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 14th August 2019 at Chennai inter-alia to consider, approve and adopt the unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 2019.

**U SARAVANAN** 02.08.2019 Chairman & Managing Director

# GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE LIMITED

Regd. Office: Patiala Road, Nabha - 147 201 (Punjab). Head Office: 24th Floor, One Horizon Center, DLF Phase 5, Golf Course Road, Gurugram - 122 002, Haryana. Tel. No. 01765-306400; Fax No. 01765-220642



Statement of Unaudited Financial Results for t	he Quarter ended	June 30, 2019		(Rs. in Lakhs)
PARTICULARS	3 Months Ended 30.06.2019	Preceding 3 Months Ended 31.03.2019	Corresponding 3 Months Ended 30.06.2018 in the previous year	Year to date figures for the previous year ended 31.03.2019
(Refer Notes Below)	Unaudited	Audited (Refer Note 7)	Unaudited	Audited
1 Total Income	13,20,90	14,08,95	12,03,59	52,14,61
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items)	3,85,66	4,26,25	3,11,86	15,12,29
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	3,85,66	4,26,25	3,11,86	15,12,29
4 Net Profit / (Loss) for the period (after tax and after Exceptional items)	2,48,08	2,85,81	2,00,44	9,82,80
5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,49,84	2,80,30	2,04,34	9,89,85
6 Equity Share Capital	42,06	42,06	42,06	42,06
7 Reserves & Surplus	N.A.	N.A.	N.A.	40,52,66
8 Net Worth	N.A.	N.A.	N.A.	40,94,72
<ul> <li>Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -</li> <li>(i) Basic :</li> <li>(ii) Diluted :</li> </ul>	58.98 58.98	67.95 67.95	47.66 47.66	233.69 233.69

- The above is an extract of the detailed format of Financial Results ended June 30, 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange at www.bseindia.com and www.nseindia.com and the Company's website viz. www.gsk-ch.in.
- The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on August 1, 2019 and were subjected to a limited review by the statutory auditors.
- The above results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down under Indian Accounting Standard (Ind AS)-34, "Interim Financial reporting" prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted
- As the Company's business activity falls within a single operating segment namely "Nutrition", the disclosure requirements of Ind AS 108 "Operating segment" prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder, are not applicable.
- On December 03, 2018, the Board of Directors of GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Limited ("Company") approved a Scheme of amalgamation ("the Scheme") between the Company and Hindustan Unilever Limited ("HUL"), their respective shareholders and creditors subject to obtaining requisite regulatory and other approvals. The Scheme of Amalgamation was filed with the National Company Law Tribunal("NCLT") seeking directions to hold equity shareholders' and unsecured creditors' meetings. Pursuant to the order dated April 12, 2019 passed by the NCLT, the tribunal convened meetings of the Equity Shareholders and Unsecured Creditors of the Company on June 1. 2019. The Equity Shareholders and Unsecured Creditors of the Company, at their respective meetings, approved the Resolution as set out in the Notice of Tribunal Convened Meeting, approved the Scheme of Amalgamation with requisite majority. The Company has now filed the requisite Company Scheme Petition seeking sanction of the NCLT. With effect from the Appointed Date (as defined in the Scheme), the Company shall stand amalgamated into HUL and its Undertaking shall, pursuant to the provisions of Sections 230 to 232 and other applicable provisions, if any, of the Act, be and stand transferred to and vested in HUL, as a going concern without any further act, instrument, deed, matter or thing so as to become, the undertaking of HUL by virtue of and in the manner provided in the Scheme. In view of above, these unaudited financial results have been prepared on a going concern basis.
- The Company has adopted Ind AS 116 Leases effective April 1, 2019, using the modified retrospective method. The Company has applied the standard to its leases with the cumulative impact recognised on the date of initial application (April 1, 2019). Accordingly, previous period information has not been restated. Under modified retrospective approach, the Company has recorded lease liability at the present value of the remaining lease payments, discounted at the incremental borrowing rate and the right of use asset at an amount equal to the lease liability, adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease payments related to that lease recognized under Ind AS 17. This has resulted in recognising a right-of-use asset of Rs. 62,87 lakhs and corresponding lease liability of Rs. 61,10 lakhs as at April 1, 2019. Consequently in the statement of profit and loss for the current period, operating lease expense which were recognised as other expenses in previous periods is now recognised as "Depreciation and amortisation expense" for the right of use assets and "Finance cost" for interest accrued on lease liability. The adoption of this standard did not have any significant impact on the profit for the period and earnings per share.
- 7. The figures of the quarter ended March 31, 2019 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures upto the end of third quarter of relevant financial year which were subjected to limited review.

On behalf of the Board NAVNEET SALUJA

MANAGING DIRECTOR

DIN:2183350

Place: Gurugram Date : August 01, 2019

5609.2019

# Standard Chartered PLC Group

Registered office: 1 Basinghall Avenue, London EC2V 5DD





# CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

INTERIM RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2019 6 months 6 months 6 months 6 months 6 months

Total Equity	50,439	50,352	51,488	3,476,155	3,470,159	3,548,450
Total Liabilities	662,065	638,410	643,386	45,628,196	43,997,940	44,340,876
Total Assets	712,504	688,762	694,874	49,104,351	47,468,100	47,889,326
Diluted earnings/(loss) per ordinary share	37.5	(21.7)	40.2	25.9	(15.0)	27.7
Basic earnings/(loss) per ordinary share	38.0	(21.9)	40.7	26.2	(15.1)	28.0
Earnings per share:			70			
	Cents	Cents	Cents	Rupees	Rupees	Rupees
Profit/(loss) for the period	1,496	(484)	1,593	103,101	(33,357)	109,786
Taxation	(918)	(686)	(753)	(63,267)	(47,278)	(51,895)
Profit before taxation	2,414	202	2,346	166,368	13,921	161,682
Profit from associates and joint ventures	180	73	168	12,405	5,031	11,578
Other impairment	(44)	(132)	(50)	(3,032)	(9,097)	(3,446)
Impairment losses on loans and advances and other credit risk provisions	(254)	(439)	(214)	(17,505)	(30,255)	(14,748)
Operating profit before impairment losses and taxation	2,532	700	2,442	174,500	48,243	168,298
Operating expenses	(5,298)	(6,462)	(5,185)	(365,128)	(445,348)	(357,339
Depreciation and amortisation	(577)	(431)	(426)	(39,766)	(29,704)	(29,359
General administrative expenses	(953)	(2,118)	(808)	(65,679)	(145,968)	(55,686
Premises costs	(191)	(417)	(373)	(13,163)	(28,739)	(25,706
Staff costs	(3,577)	(3,496)	(3,578)	(246,520)	(240,937)	(246,589
Operating income	7,830	7,162	7,627	539,628	493,591	525,638
Other operating income	380	390	431	26,189	26,878	29,704
Net trading income	994	717	966	68,504	49,414	66,575
Net fee and commission income	1,838	1,623	1,869	126,671	111,854	128,808
Fees and commission expense	(282)	(292)	(245)	(19,435)	(20,124)	(16,885
Fees and commission income	2,120	1,915	2,114	146,106	131,978	145,693
Net interest income	4,618	4,432	4,361	318,263	305,445	300,55
Interest expense	(5,225)	(4,605)	(3,866)	(360,097)	(317,367)	(266,437
Interest income	9,843	9,037	8,227	678,360	622,812	566,988
	\$ million	\$ million	\$ million	Rs. million	Rs. million	Rs. millio
	ended 30.06.19	ended 31.12.18	ended 30.06.18	ended 30.06.19	ended 31.12.18	ende 30.06.1
	6 months	6 month				

- 1. The Group condensed consolidated interim financial statements consolidate those of Standard Chartered PLC (the Company) and its subsidiaries (together referred to as the Group) and equity account for the Group's interest in associates and jointly controlled entities.
- 2. The Group presents its financial statements under International Financial Reporting Standards (IFRS) and International Financial Reporting Standards Interpretations Committee (IFRIC) interpretations as endorsed by the European Union, the Companies Act 2006 (United Kingdom) and in accordance with Disclosure and Transparency Rules of the United Kingdom's Financial Conduct Authority (the UK FCA).
- 3. The Indian rupees (INR) / US dollar (USD) exchange rate of Rs. 68.918 on 30 June 2019 as published by the Reserve Bank of India has been used to translate the above results. Amounts have been translated using the said exchange rate including totals and sub-totals and any discrepancies in any table between totals and sums of the amounts listed are due to rounding.
- 4. The 2018 final dividend of 15 cents per ordinary share (\$496 million) was paid to eligible shareholders on 16 May 2019, and is recognised in these interim accounts. The Board has decided to adopt a formulaic approach to setting the interim dividend (7 cents) for 2019, being one-third of the prior year full-year dividend per share. The financial statements for the six months ended 30 June 2019 does not reflect this dividend as this will be accounted for in shareholders' equity as an appropriation of retained profits in the year ending 31 December 2019.

By the order of the Board

Sd/-

Andy Halford **Group Chief Financial Officer** 01 August 2019

Here for good

PRATAAP SNACKS LIMITED

Reod, Off.; Khasra No, 378/2, Nemawar Road, Near Makrand House, Palda, Indore 452 020 (M.P.), India Email: complianceofficer@yellowdiamond.in, Website: www.yellowdiamond.in Tel.: 0731-2439999, CIN: L15311MP2009PLC021746

## NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we write to inform you that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 9th August, 2019, inter-alia, to consider and approve unaudited standalone and consolidated financial results of the Company for the guarter ended 30th June, 2019. The above information is also available on the Company's website,

www.yellowdiamond.in and on the stock exchange website www.nseindia.com and www.bseindia.com For Prataap Snack Limited

Place: Indore Date: 1" August, 2019

Om Prakash Pandey Company Secretary & Compliance Officer



### Bharat Rasayan Limited Regd. Office: 1501, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi - 110008. CIN: L24119DL1989PLC036264

Email: investors.brl@bharatgroup.co.in Website: www.bharatgroup.co.in NOTICE is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, August 14, 2019, inter-alia, to consider and approve the unaudited financial results of the Company for the guarter and three months ended June 30, 2019.

www.bharatgroup.co.in and may also be accessed on the Listed Stock Exchange

Further, the Trading Window of the Company shall remain closed from August 1, 2019 to August 16, 2019 (both days inclusive) for the specified persons in terms of Code of Conduct of the Company to regulate, monitor and report of trading in Company's securities by insiders framed under the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015. For BHARAT RASAYAN LIMITED

New Delhi. August 1, 2019

0.69



- 2	<u> </u>			(₹ in Crores
SI. No.	PARTICULARS	Quarter	Quarter Ended Ye	
	PARTICULARS	30.06.2019	30.06.2018	31.03.2019
1	Revenue from Operation	2,575.39	2,439.52	10,369.94
2	Operating Profit (PBIDT)	245.69	332.06	1,196.16
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	15.98	133.72	359.41
4	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax but after Exceptional items)	20.69	110.07	270.46
5	Net Profit / (Loss) for the period (after Tax and Exceptional items)	16.12	64.24	170.57
6	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	14.25	65.34	161.30
7	Equity Share Capital	49.24	45.36	49.24
8	Other Equity excluding Revaluation Reserve as shown in Audited Balance Sheet of previous year			2,235.16
9	Earnings Per Share (of ₹ 2/- each)			
			C11 C12 C12 C12 C12 C12 C12 C12 C12 C12	1/7/70/99/00/75

#### Notes:

Basic / Diluted (₹)

Standalone financial information of the Company, pursuant to regulation 47(1)(b):

(₹ in Crores)

7.77

2.83

PARTICULARS	Quarte	Quarter Ended		
FARTICULARS	30.06.2019	30.06.2018	31.03.2019	
Turnover	1,809.40	1,893.32	7,689.67	
Operating Profit (PBIDT)	160.49	225.14	807.52	
Profit before Tax	20.43	101.64	304.68	
Profit after Tax	17.33	67.64	204.40	

Standalone Financial Results for the Quarter ended 30.06.2019 can be viewed on websites of the Company, National Stock Exchange of India Ltd. and BSE Ltd. at www.jktyre.com, www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (URL of the filings- http://www.bseindia.com/corporates and http://www.nseindia.com/corporates).

for JK Tyre & Industries Limited

Raghupati Singhania Chairman & Managing Director

(I) VIKRANT

New Delhi

1st August, 2019





Admin. Office: 3, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002, Fax: 91-11-23322059, Phone: 91-11-33001112, 33001122 Regd. Office: Jaykaygram, PO - Tyre Factory, Kankroli - 313 342, Rajasthan, Website: www.jktyre.com Corporate Identity Number: L67120RJ1951PLC045966



# National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways) G-5 & 6, SECTOR-10, DWARKA, NEW DELHI-110075

# Unaudited Financial Results for Half year ended 31st March 2019

(as per annexure 1 of SEBI circular CIR/IMD/DF1/69/2016 dated Aug. 10, 2016)

(Rs. in Lakhs)

Half year ended Previous year ended **Particulars** 31" March 2019 31" March 2018 31" March, 2018 No. Unaudited Unaudited Audited Total income from Operations Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and or (29,118.67)(23,731.03)(37,921.22)Extraordinary Items) Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and or (29,406.92)(24,279.96)(39,226.27)Extraordinary Items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and or (29,406.92)(24,279.96)(39,226.27)Extraordinary Items) Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit/Loss for (29,406.92)(24,279.96)(39,226.27)the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)\* Paid up Equity Share Capital 1,92,85,995.61 1,63,77,926.38 1,63,77,926.38 Reserves (excluding Revaluation Reserve) 8. Net worth 1,92,85,995.61 1,63,77,926.38 1,63,77,926.38 179,43,786.63 1,22,52,415.96 Paid up Debt Capital/Outstanding Debt 1,22,52,415.96 Outstanding Redeemable Preference Shares Debt Equity Ratio \*\* 0.93 0.74 0.75 Earnings per share (of Rs. ..... /- each) (for continuing and discontinued operations)a. Basic b. Diluted NA Capital Redemption Reserve Debenture Redemption Reserve NA NA Debt Service Coverage Ratio NA 16. Interest Service Coverage Ratio NA NA NA

\*Based on Accounting Policy net expenses are capitalized.

\*\*Debt Equity Ratio= Debt Outstanding / Shareholder's Fund\*\*\*

- \*\*\*Shareholder's Fund is the sum total of Capital Base, Cess Fund, Toll plough back, Additional Budgetary Support after adjusting the toll expenses, excess of O&M expenses over receipts and extraordinary items.
- Entire capital of the Authority is provided by Government of India and the capital is not divided into shares.
- Figures for 31st, March 2019 have been subjected to "Limited Review" by a Chartered Accountant Firm.
- 3. The figures for the previous year have been regrouped/ rearranged wherever necessary to make them comparable. The audit of the accounts of the Authority is carried out by the C&AG on an annual basis.
- 5. The figures for the corresponding half year ended 31st March 2018 reported against serial 6, 8 & 9 are as per audited accounts. As on 31st March 2019, no investor complaint is pending.
- 7. Audit Report on the Annual accounts 2017-18have been submitted by C&AG on 15.04.2019. Annual Report 2017-18 is yet to be laid
- before the Parliament. 8. During this period NHAI has collected Rs. 14,508.55 crore as toll revenue (including Rs. 9,681.50 crore from TOT) and deposited
- Rs. 14,476.33 crore to CFI. MoRTH during this period has ploughed back Rs. 12,072.63 crore to NHAI. 9. NHAI does not have its own source of income; however during the 2nd Half Year 2018-19, NHAI has generated an income
- of Rs. 8.51 crore, mainly through sale of tender documents.
- 10. As on 31<sup>st</sup> March 2018, there is a contingent liability of Rs. 55,344.97crore and USD 4,30,137.78 in Arbitration and Rs. 7,439.05 crore & Euro 2,62,180.71 in Court Cases. NHAI on the other hand has claimed 29,583.87 crore in Arbitration and 1,418.10 crore
- in Court Cases. Figures for 31.03.2019 are under compilation. NHAI is constituted by an Act of Parliament for development, maintenance & management of National Highways. NHAI is an "Executing" Agency" of Government of India and therefore does not have its own income or expenses. Excess of revenue expenses over income, as shown at sl. No. 5, is transferred to Project Development cost i.e. Assets held on behalf of Government of India.

For and on behalf of the Board of the Authority

Sd/-Member (Finance)

Sd/-Chairman

NOT JUST ROADS, BUILDING A NATION

standardchartered.com Adfactors 185 Date: 30.07.2019

Place: New Delhi



The said Notice may be accessed on the Company's website at http://

(NIKITA CHADHA)

Company Secretary

बाबू को लेकर हुआ जमकर विवाद

# पुलिस मुख्यालय में झगड़ी दो महिला पुलिसकर्मी

पुष्टिस मुख्यालय में गुरुवार को एसएसपे का जन्मदिन मनाया भारदा था, वहीं पास के एक हॉल में एक बाबू को लेकर दो महिला पुलिसकर्मियों में जनकर विवाद हो गया। इस दौरान दोनों ने एक-दूसरे को जमकर खरी-खोटी सुनई। महिला स्टाफ ने दोनों को समझाने की कोशिश की और उन्हें अक्रम किया। मुख्यालय में शोर सुनकर सभी अपने रूम से बाहर आ गए। मामलों में एक महिला पुलिसकर्मी ने अफसरों को लिखिल शिकायत की है।

मामका स्टाफ में प्रस्थ बाबू से संबंधित है। बाबू के कमरे के पास में एक डॉल में बैठने वाली एक महिला पुरिप्तकर्मीने दूसरी महिला आरश्रक पर अजानक तानाकरा दिया। इस पर क नाराच्य हो गई और आरोप क्रमाने व्यक्ती दूसरी महिका। पुरिपक्तमं को जनकर खिनाई शुरू कर दी। दोनों एक-दूसरे के परिवार तक पहुँच गईं। साथ ही पुराने मामुले कुरेदने कार्गे। इस दौरान पूरे डॉज में सन्ताटा छ। गया। सिर्फ दोनों की आवान कमरे के बहर आती रहीं। वहां अफसरों के बीच अपने कामनिषटाने आए सिपाडी डॉका में जाने की डिम्मत नहीं कर सके। काफी देर तक वे भी सकते में रहे।

राष्ट्रगान के अपमान का मामला

## मेयर, सभापति व अन्य के खिलाफ कोर्ट में परिवाद

हुंदौर। रुष्ट्रबान के उपमान के मामले में मेयर, समयति सहित है। एमआईसी सदस्य के खिलाक प्रकरण दर्ज करने के लिए जिला षाबातक में उत्पराकिक परिवाद कुबर किया गया है ।

12 जून को बिलियंट कर्ण्डेन सेंटर में बजट सब के दूसरे कि पारंक में पूर्व ख़ब बल्द्रबान गर्ने तके जिसे बीच में ही एमआईसी सदस्य सुरम केरों में रुकाब दिख और कर्युगीत बाब। इसमें मेबर महिला बैंड, संस्थित उपमाशिक गरुका, पार्शद सुवीर टेडने में भी साथ दिया जो कि कर्युगम के उपमान की श्रेणी में उसता है। करीस में उपवेक्त जिन्मी वृद्धें पुर प्रकट्ट पर्द्या करने की भी मांगू की, बेकिन पुलिस ने उसे ठंडे पस्ते में खल दिया था। इसपर कांग्रेस के प्रदेख प्रकार प्रमोद कुमार ठक परता न कारा (द्या था। इस पर समझ्य कथ एक प्रकार प्रभाद कुन्नर हिष्टी के द्वारा एक बेकेट नगीन जादम और एक बेकेट निर्वेदिता कर्म के माञ्चन से कुदुबाग का कममा करने वही होतों पर केस हुई करने की मांब को केकर जिला ग्लायलय में अध्यवश्विक परिवादसस्तुत किया है। अब कोर्ट में चका परिवाद पर सुगवर्ष होती।

#### प्रोफेसर के घर से जेवर सहित लाखों की चोरी

इंबेर। वेजानी नगर में चोर एक प्रीफेसर के वर में युवकर नेवर सहित तायों का माल से गए।प्रलिस आरोपियों के सीसीटीवी फ्रेटेज खंगात रही है। पुतिस के बुताबिक वारदात रामजी वाटिका निवासी प्रदीपकुत्रार मेहता के घर में हुई। वे रिफ़्तेवार के घर गए थे। इन वीरान चोर घर का ताला तोडकर अलमारी में रह्या सोने का नेकलेश, शिक्का, ञ्चमके, चेन, दो अंगूडी, टीका, मांग, तब, अवगंड की अंगूडी, दो मोबहल और इज़रों रुपए से गए। प्रोफेकर को जानकारी लगी तो उन्होंने पुलिस

#### बुकिंग कराने के बाद कार और मोबाइल छीन लेगया

इंदेर। प्रलिस ने टेक्बी कार चलाने बाते बुक्क की शिकावत पर बुधवार को एक बावित के दिलाफ केल दर्ज किया है। विजय नगर पुलिस के मुताबिक वोगेंद्र पिता अंतरसिंह टाकुर ओता कंपनी की कार बतावा है। कंपनी से एक व्यक्ति ने टेक्सी बुक कराई। बोर्भेंद्र बताए पर्वे पर केंग्र लेकर इंग्फेटेक झेटल के वामने सर्विस रोड पर पहुंचा। वसं आहक ने गाड़ी में बेटने के बाद उसे हशिबार के बल पर बाहर निकाला और उचका

मोबाइत व कार की बाबी जीन ली। इसके बाद वह गाड़ी लेकर फरार हो

गबा। पुलिच ने मामले में एक बुक्क

को हिराजन में लिया है।

मामला दबाने में लगे बाबू

डर बीब अन्य महिला स्टाफ दोतों के बीच खुलह कराने के लिए खड़ा हो गवा, तेकिन उनमें चल रही छींटाकशी के चलते पुरुष स्टाफ तो सन्त रह गया। बाद में महिला विपाझी ने ताना कसने वासी महिला पुलिचकर्मी के खिलाफ आवेदन लियने लगी। पूरे स्टाफ ने उसे सम्ह्याने की कोश्विश की, लेकिन वह नहीं मानी। बताया जाता है कि उकत मामले को बाबू भी दवाने में लने हैं, ताकि वरिष्ट अफसरों वक बाव नहीं पहुंच पाए।

#### 🔞 पश्चिम रेलवे - स्तलाम मंडल

कर्जन रहेशन पर क्वीक वॉटरिंग सुविधा हेतु ई-निविदा

संस्था: M137/18 (BICINA/UJIN, दिनोंबर 24,07,2019 (1) स्वर्ण का नाग एर स्वास्ट पार्ट्यन रहेकन के फोटकॉर्म रं. 1,2,5 लं 8 पर उपलेख रहेका के फोटकॉर्म रं. 1,2,5 लं 8 पर प्राचेका कार्र में कर्तक वॉन्टिंग सुविधा का लेन ग्रह सर्ल स्ट टेका। (2) कार्य की अनुमानित कायत: वायेगा। **(4) बदाना राशि:** २,2,64,303,00/**-**(5) सम्पन्न अवस्थि 5 मार (5) कार्यात्म का पता जहाँ विविद्या खुकेगीः गण्डल रेल उर्वापक (वार्डिक)-वार्ताम, मण्डल खारांच्या राज्याम (परे) (ए) विविद्या जाँचे पत्म करते र विविद्या <del>શાતને સા સમય</del>: 15.00 વર્ષ તરુ જ્યા કરવે સ मर (19.08.2019), 15.30 वने निमित्र कुलने । सम्मा(19.08.2019) (8) वेबलाइटर मॉर्टिस कोई वहाँ निर्मिद्धा है सम्बंधित सम्पूर्ण नानकारी प्राप्ता की जा सकती है: निर्मिद्धार परिचन रेत्सूर्य की रेक्साइट <u>www.ieos.gov.in</u> पर ऐसी ज करती है, काय ही इस सम्बंध में कोई भी बानववरी १९०८ - कि. अवेषन (बॉरिन) करतार १९०८ दरवांतव राजन (१३) से समी कार्यातवीन दिवस

क्षेत्रहरू करें € lacebook.com/WesternRiv

## कार्यसम् कार्यपालन यंत्री, स्त्रीक स्वारुष्य वांत्रिकी संड, असीक्ष्मपुर (स.प.) वृत्रप स्वं केल क्रमंत्र १७०० २००००

वित्युक्तः कर्न्द्रश्यद्धानाम् (स्तारं कार्याः) व्यवस्थानम् । (स्तितं असंत्रतः) । स्वतः । स्व

ı	ALLOSE TITE SUCILIACIONE AL ALIAN DE LIBARAN SE ARCHITACION DE						
	Ψ.	ई-रंगक का इसके	আৰ্থ আ মাধুৰ চিচাল।	सर्वकी अनुसन्ति सामः रः	ख्तेज़ सक्ति इ.	डेकेडरकी क्षेपी	निविद्या आंग्लाईन इन्द्र करने ही ऑर्डिय विद्या
	1	2019 PHF0 16218 2	Providing. Supplying and installation single phase subnersible notor pumps, providing laying and justing pipe line, efectificatin work in strage Prio CENTER Udagrah, Bor and Amotust in distributions.		1280020	ग.प्र. लेक निर्माण रिच्या सेकार में केन्द्रीतका प्रणाली ऑसरेंट उपयुक्त केन्द्री में स्वीपूत	00.08.2019

- क्ट केवल सीक्षा निविद्य है जो प्रकारनथ जारी की जा रही है। निविद्याओं न संबंधित अन्य विस्तृत
- क करना प्रशास प्रमाण प्रमाण करता है। जन्मती इसीत देक्साइट में देखी जा करता है। इसोत विनेदारों में बहिल्य में किसे जाने करता है। अपनेत विनेदारों में बहिल्य में किसे जाने कारत देखीयों के प्रमाण पर्ध में प्रकार की किस करेगा। उक्त मंत्रीयन नेशन उपनेत नेशबईट या दी हमानित विशे नानेंगे। आईकारण देखी <sup>१९।</sup> कार्यशासन वंत्री सो स्वाबं, समह असीर वसूर

#### म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(म.स. शासन के पूर्ण स्वाभित्व में)(C.15: U40009MP2001SGC004880) व्यक्ति नं. 04, शक्ति भवन, रामपुर, जन्तपुर (न.प्र.)- ४४२००८ कार्यावय कार्यसक्त अभिगंता (पति उन्त राब-नेमांण) संभाग

1:82 के.व्ही. जावरा रोड, प्रकाश नगर, रतलाग-45700।

फोन : 47419 981830, ई मेल :eeebtczim@mptranson.nic.in का.पा.वं./(अउदा निर्माण)/संभाग/७८७

#### सूचना

भ्यप्रदेश पॉवर हांसमिश्रन कंपनी लिमिटेड जारा 192 के.प्री. राज्यान-नेपनगर लड्न की लो कर 132 में,की, पेरलाक ठाकेक एक निर्माण कराई गई विकास पेरवल लाइन जो कि 192 के.की. रवलाम नेपनगर लाइन वे लोकेजन क. 168 से निकलकर फेट नि जिला बाहुआ के राम अमरगह, खोरीज, नाबरहुत, कलबारिया, लगालिया, बरहिया ह्वं गेटनावद आदि सात-असात गांशों के निकटवती क्षेत्र से संते हुए 195 के.की. फेटनावद पकंद्र तक जार्नमें। इस लाइन में दिनांक 08.08.2019 या उसके बाद कभी भी **विद्युत प्रवाह चातु किया जा सकता है।** को साधारण को सूचित किया जाता है कि इस विश्वक प्रशास पांचु करना था प्रशास के 1 कि जानात के प्रशास के प्रशास कर के हैं कि लाइन में किसी भी द्वार प्रशास कई दीवर से में श्री ज्यादि न मेरी, दीवर लाइन के दीक चिने नेचे प्रशास का व्यक्तियान के पीर से मेरी हैं जाता दूक करने पर जान पान वा कुछतान ही सरका है, जिनके परियाग के ये सक्ये ही ज्यास्त्रानी होंगे। प्रशास्त्रेश पीयर द्वसणिक्षन कंपनी जिमेरेट उनके इस कृत्य के सारण होने वाली किसी भी जनि के निए जिस्मेश रोगी। कृपना सुचित हों | किसी की बच्छ से बिक्सी का उतादन है।

कार्यपातन अभिवंता (ज.उ.दा. निर्माण)

# टैगोर एके सफलता ही एकमात्र लक्ष्य ..... 19 अगस्त 2019 राज्य d 138

# दैबंग दुनिया | CLASSIFI



हाइंप्रीफाइल ्षीमेल, कालेज गर्ल, हा इसवाइफ दोस्ती करें।

नो सीटिन 190% नारटी 8889858038

दबंग दुनिया में विज्ञापन के निये संपर्क करें 0731-3070100-123

प्रकार के विज्ञानमें के दावों के दिन्हें

#### बिल्डर की शिकायत लेकर पहुंचे टाउनशिप के रहवासी

इंदेर। लसुड़िय की एक टाउनशिप के रहनाची गुरुवार को एएसपी ने मितने पहुंचे। उन्होंने बड़ा बिल्डर की शिकावत की। उहनाजियों ने बतावा कि मेंटे नेंस के स्वपर लेने के बाद भी बोरी और अब बरवातें हो रही हैं, लेकिन बिल्डर नुरक्षा के

वेतमोट पार्क रहवासी संघ, रकीन 78 के रहवासी पुतिश कंट्रोत रूप में एएसपी थेलेंड सिंह से निर्मा उन्होंने बताब कि उनकी राज्यधिप में लगाता की स्वा हो रही हैं। महिलाओं को लेकर भी पूरी कॉलोमी अधुर्वित है। उनके मिल्डर अरुण जमरिया और उनके साथियों ने मेंट्रॉस के रुपए ले लिए, लेकिन खुरुबा के ड्लमाम नहीं फिए। इस पर एएसपी ने लचूड़िया टीआई को कॉल कर तुरंत बिल्डर को बुलाकर रहवाचियों की समस्या खुलड़ाने को कहा।

#### कार्यालव सेनानी 34वीं वाहिनी विसबल धार म.प्र.

નીભામી સૂચના

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है के 34वीं वाहिनी विसकत धार परिसर की तकरोबने उपएकड भीमें पर (आवासीन परिसर कार्यालन भवन बैरिक को छोड़कर) शेष भूमि पर उमी बास की बिक्री की जाना है। जो खरीका इजाई गरिसर की पास खरीका पासते हैं वे निवारित दिशांक को बाहिनी कार्यालय में उपस्थत होकर नीलामी में भग ले सकते हैं। नीलामी में भाग लेने वाले ऋरीदारों को धरोहर रात्रि रूपये 1000-1000 अरिम राशि के रूप में नीलमी के र्वं इस कार्यालंड में जम करानी होगी जो बोली समाप्त होने पर वापसी प्रोग्य होगी। नीलामी के बाद अंतिन बोलीकर्ता को शेष रकम एक मुश्त जमा कराना होगी।

नीलामी दिनांक 16.08.2019 शुक्रवार को कायांलयीन समय 11:00 बजे कार्यालय सेनानी 34 बाहिनी विसब्बल भार में ही की नावेगी। अधीहन्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण नीलामी

(अखिलेश झा) 3वीं वाहिनी विसवल धार

# MAHADHAN

G-14843/19

#### NOTICE

In order to make the Indian Farmers internationally competitive Mahadhan Farm Technologies Fvt. Ltd., brings to you the following 100% Water Soluble Mixture Ferfilisers as per order dared 24.13.2015, issued by Ministry of Agriculture & Farners Welfare, Govt. of India, New Dahi.

Sr. No.	Name of Fertiliser	Total N (%)	Total P (%)	Total K (%)
1	Mahadhar WSF - 15:25:10	15	25	10
2	Mahadhan WSF - 9:27:18	9	27	18
3	Mahadhan WSF - 0:44:29	0	44	29
4	Mahadhan WSF - 19:19:19	19	19	19
5	Mahadhan WSF - 13:40:13	13	40	13
6	Mahadhan WSF - 20:20:20	20	21	20

#### Saliert Features:

- 1. 100% Water Soluble Mixture Fertilisers.
   Improves Quality and yield of the produce.
   Suitable to use through drip ling adon and foliar application.
- Packing: Available in 1 and 25 kg Packing.

Supply and sales of above Mahadhan W3F grades will be done after 30-35days.

MAHADHAN FARM TECHNOLOGIES PVT. LTD. Congruence Office - Not Histo, Naivery No. 90, Municipus Road, Wundhave, Pune - 411086.

SMARTCHEM TECHNOLOGIES LTD. Gapusser Office - Not Hay, No very No. 95, Nondrive Feed, Mundrive, Pone - 412036.

#### जाहिर सूचना (प्रतिवाद का खंडन)

क्वेंकाधारण को सुवित किया जाता है कि. ग्राम विहासिया की उल्लेखित भूमियों ( सर्व नं , स्कब ) 108/2-0.223, 111-0.146, 112/1-0.064, 116-0.113, 118 एर 119/2/1-2.177, 119/1/1-0.122, 179/1/2-0.4/5, 119/1/3-0.4/9, 119/2/2-2.342 123/1/1 - 0.820, 123/1/2 - 0.085, 123/1/3 - 0.148, 162 - 0.012, 165 - 0.040 कुल स्कबा ७.१८८ हेमदर के संबंध में दैनिक समाधार पत्रों में प्रकारित माहिर सूदना, प्रविवाद व भेडन के विषय में अमित करने वाली खुवनाएँ प्रकाशित हो रही है. उपरोक्त भूमियों के सन्दर्भ में अनुविभागीय अभिकारी राजस्य (SDO), रांसीमतानंज, इन्दीर हारा अपने आदेश दिनांच 68/01/2019, प्रकरण के .04/अपील/16–17 हारा पूर्व मामान्तरण निरस्त कर रिया गया है में अपने दिनांक को भी एमावसील है। असहर उरात राष्ट्रिय में एकाजित नाहिर सूरनारों दिनांक 26 जुलाई, 2019 को भी समिन मालाकार एहवीकेट आ . जिला कोर्ट रूप मं . 15 के पास जिल वाबातव परिसर एम.जी. रोह. इन्बीर म.प्र..मी.: 9754757711 के द्वारा वैनिक दर्बन दुनिव नाचार पत्र के पृष्ट क. 04, कॉराम न. 6 पर अपने अञ्चाय पक्षकार की और से प्रकारिय विश्वके प्रतिवाद में हो राजू रातीर एडवीकेट 42, किबे कंपाउग्ड, इन्टीर (म.प्र.) मो 9826085717 ने ही, 27 जुलाई, 2019 को दैनिक दक्षण दुनिया के गुण्ट के. ४ पर अगर पशकार 1 . ची संदेश कुमान निचा विता ची शंकरतात निचा, नि. ची कृषण भगन तातता चीक । रोड़, रपुराज नगर, जिला रात्सा (ग.प.) २, श्री अनुराग पिता खोगराज नि . 74 प्रापनाथ वार्ड नं...६ जिला पन्ना म..प्र. कम प्रतिवाद, जिसके प्रतिवाद/खंडन में बी ओमराव पिता बी बबुराव बादने निवासी : 1307-वी, स्कीम में . 71 इन्बेर (म.स.) द्वारा वी ॥30 जुनाई 2019 को निक अन्तिवाम ने प्रकारित हुई है। उपरोक्त वाम विहादिया की भूमि/भूमि इक्रांतित समस्ता स्व-गएं आस्तव आधानी पर व विधि के विपरीत है. उपरीक्त भूमि में भी ओमराव गवले को कोई खेला प्राप्त न होकर उनके इस्तालस्य का कोई विभि पूर्वक अभिकार नहीं है उपरोक्त भूमि मेरे प्रशासन की अन्यप पिता की शिवाणी बोराई, मि. 84 मरादी मोरखा, इन्दीर (ग.स.) व रव. जी मुक्केदलव अन्यामी जेसाई की देशावती में आने वाले समस्त हिनसाही व वरिन्तान के स्वात की है। अवस्य उत्तर जाहिर सूचनाओं के आधार पर चूर्न में य इस सूचना के एकाजन के बाद प्रवंदना पूर्वक किया गया को है भी औदा य विक्रियन य अन्य कोई हस्तानरण का ातास विभिनान्या न होक्कर प्रभाव शुन्य होया और मेरे पक्षकार पर संधनकारी नहीं होया श्रयदि उक मिन से संबंधित किसी भी तरह के विवाद में मेरे प्रथकान को न्यायालय की जनग में दीवानी य प्रोजदारी कर्मकाही करने की आक्सकता गड़ी तो उसके समस्त हमें खर्च एवं उसन्न दासित की जवनदारी सीदा करने वाले/वालें की होगी। इन्दौर, दिनांक 31 जुलई 2019

**डॉ. विवेक पाण्डिय** (एडवोकेट सई कोर्ट, इन्टीर) इन्टीर (ए.च.) गो. : १००४ ५५०५५ इन्टीर (ए.च.) गो. : १००४ ५५०५०

#### कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1, रिक्टनगर ओल्ड प्रनासिया, इन्डीर eepwd1ind@mp.n.c.in Pn.No. 731-2480978

नीलामी विज्ञप्ति क्रमांक ११/गंडार/२०१९-२० ंदीर, दिनंक 26,07,2019

कार्यपासन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1 इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश के राज्यपाल को ओर से भवन ध्वस्तीकरण हेतू खुली नीलामी दिनांक 19.08 2019 को दोपहर 03:00 बजे आमीजित की जाती है। लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार की बोली में भग लेने हेतु पात्र रहेंगे।

स.	विवरण	शासकीय	रूमय
क.		मूल्य	श्रवधि
01	सिविल अस्पताल मह् के पुराने अपिलिखित भाग का प्यरतीकरण, सामग्री परिवहन एवं समतलीकरण कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	56084.00	1 माह वर्षकाल संहित

- 1. चेली में भाग लेने हेतु बिगांक 13.08.2019 साम 5-30 तक रू. १८००.०० का ऑनलाईन धुगतान कर आवेदन क्रय किया जा सकता
- अविदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 16.08.2019 को 05:30 शाम तक स्टेबी।
- अवेदन के साथ अपरे 10000.00 की एफ.डी.आर. लोक निर्माण विभाग में पंजीबन का प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. एवं आयकर, लो.नि.वि.में प्रिकरण प्रमाण पर प्रस्तुत किया जान आलक्ष्यक है।
- वोटर आई.डी. एवं आपॉर कार्ड, पेर कार्ड आदि प्रस्तुत करने पर ही बोली में भग लेने दिया जावेगा। अधिकतम बोलीकर्ता को बोली स्वीकृत हो? के सार कार्य दिवस में
- राज़ि जमा करनी होगी। कर्न पूर्ण करने की अपांध कामित्र जारी होने के प्रांक से प्रारंभ

G-14839/19

कार्खपालन यंत्री लो.नि.वि. संभाग क. 1

इन्दोर

G-14770/19

#### पश्चिम रेखवे रामकी प्रखंधन विभाग

पेर्टन www.freps.gov.in देखे.

#### PRATAAP SNACKS LIMITED

ss (n. 3792, demawa kodi. NearWaksard lause, Palia, Indoe 52 020 (N.P.). Indo riplianceoffiser@hyelowdiamind.in, Webelle, www.yellowdiamond.in Tal.: 0731-2439909, CW: L15311MP2009P,C0217-6

NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEDI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we write to inform you that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Frday, 9° /ugust, 2010, into allo, to consider and approximately definition and concellibrated

financial results of the Company for the quarter ended 90" June, 2019.

The above information is also available on the Company's websit www.yellowdiamond.in and on the stock exchange website www.neeindia.com an mos.sibnieat.www

अलीवनपुर, दिसंक २६.८७.२०१०

इन्देर, दिनांक 24/7/19

#### कार्यालय कार्यपातन यंत्रो, लोक स्वास्थ्य यात्रिकी खंड, अलीराजपुर (म.प्र.)

तूरभाष एवं फैक्स कमांक 07394-243706 Email : rephedalirajpur@redillmail.com मि.सू.क. १४/देण्यस्का.ब./लोसवा.चो.च्यं/१७ निविदा आमंत्रण सूचना

विभिन्न पुरुष है देखारिय वहीं। से हे जोक्षुरवेंद्र पोर्टन https://mptenders.govin पर विभन्न उपन अवेक्टिका 2, 10° जीतन पर पा अववेति हैं। विनिध्यों का विकास हिम्मपुरुष हैं :-

	र्ट्डब्यू ।	फार्ये का गंधित विकास	फाप जा	अयोद्धर चहित	वेकेदर की अंगी	निविद्य ऑनवर्ड्न
काः	क्रमांच		अनुमानित	₹.		क्रय करने की ऑक्ट्रम लिंग
PH 407	HED	Elecinfication Works at village Sejgson CMPWSS In Block Alirajpur Distt Alirajpur	लागत य. 3.16 लाख		ग.त. लोक निर्माण विशास भोगल में नेजीयनुद्ध प्रणाली अंतर्गत उपयुक्त क्षेत्रों में गंजीकृत	09.08.2019

- नद के रूप खंडाय निर्माद है जो प्रकाशनार्थ जाएं की जा रहे हैं। निर्मादओं से संबंधित अन्य मेंस्तृत जानकारी उपरोक्त नेक्साईट पर देखी या सकती है।
- ुप्पीक भिविदाओं में भविष्य में किने जाने वाले समस्त संबोधनों को समाचार को में उत्तरशन नहीं किया जावेग। उक्त संबोधन वेजल उपरोक्त नेनाराईट पर री बकाशित मिसे जानेंग।

G-14830/19 तो.स्वा.यां खण्ड अलीराजप्र

#### कार्यातय अधीक्षक जिला जेल अलीराजपुर(म.प्र.) जुष्पम उत्पांक १७७७४ 200542 है केल :distinctjailalirajpun@gmail.com

क्रमांक ५७५/विव्यंद्र/१०

ई-टेण्डरिंग तुतीय निविदा आमंत्रण सूचना (वार्षिक तेका वर्ष 2019-20)

जिला जेल अलीरज्ञान में परिकद बंदेयों हेतु । क्यप्रदेश जेल पुर्जिनियम १९६६ जाया नक्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम २०१५ के पहल ०९ दवाईबी प्रकरण प्रायमिक नीचे एवं अन्य सामध्यी की पूर्व के लिंद तुनीय विविद्य ई-टेण्डरिय के माध्यम है आमंत्रित की जाती है। निध्या से जाकक्षरी जेक्सपटे www.mptenders.gov.in पर प्राचाकी जा सकेवी। विविद्य कार्यक्रम का विवरण नियमपुक्तर है :

90.	विवरण	दिनांक व समब	स्थान
01.	प्री-बिट मीटिंग	19.08.2019 प्रापः 11.00 घले	નિલા નેલ અર્લારાવપુર
02.	निविद्य भागि क्रम करने से अंतिम विधि विधिय गर्नोर्ग का गुरूब ०६ लाख तर की विधिय हेतू 500/ ६ तथा ०६ लाख से अधिक की निवेदा हेतू र. 1000/ प्रतिकारी प्रक्रिय जिल्हा ने गहालेखालार स्वालिय, स.प्र. शीर्ष ००५०, बेले ४०० अन्य प्राधियों में जाम की जावेगी।		वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर प्राप्त किये ज सकेंगे।
03.	निविद्य प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	26.08.2019 सार्ग 05:30 चने	वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर ऑगलाईन स्वीद्यः की नावेगी।
04	एस्तावेनों की हार्डवॉपी / ई.एम.ई. एफ.डी.आर. बैंक टुमट एवं गएने जगानकरने की बॉलिम लिया	27.09.2019 সার: 11:00 ব-) ১৮৮	अधीक्षक कार्यालय जिला जेत क्रांकि-गृह
05	तकनीको निविद्ध (आवश्यक दस्ताकेन) एवं नमूनों की गुणजता परीक्षण	28.08.2019 प्राप: 12:00 बजे	अधीक्षक कार्यालय जिला जेल अजीराज्युर
06	वित्तीय निविद्धा खोलने की तिथि	20.08.2010 yili: 11:00 बने	अधीक्षक कार्यालय जिला जेल अलीसन्दर

उससे संबंधित समस्त जानवारी उत्तर रहाई गई वेबसाईट रह देखे। निविद्य संबंधी समस्तवार्यवाही जेल अर्धश्रव जिला जेल अनीराजपुर जेल अधीक्षक

G-14756/19 जिला जेल अलीराजपुर (म.प्र.)

### कार्वालय सहायक रजिस्ट्रार (अंक) सहकारी संस्थायें, इन्दौर

(१८७ देवी अहिल्या मार्ग, ४म शिविः जेल रोड, इंदौर)

।। कारण बताओं मुचना-पर।। (म.प्र. सहकारी सोमायटीज श्रीधनिवर 1960 की धारा 56(3) के अन्तर्गत।

SIMEST / SHIPS सादा सहराजर्र संस्था मर्ग, हन्दौर ....... इन्दौर (गंजीक क्रमांक ...... दिनांज .....

क; कि निर्माणित मेरा सरकारी संस्थाने का, सरकारी संस्थानित साराठ (निर्मे संदोध में जाने केनान 'दाधितमा' लिखा का है) के दंतरीत एक पंजीवत नहकारी संस्था है एवं मिलियान की पास २०(1) के अनुसर सीसकरी का दाविक है कि शीकतुर द्वार आधिकत किये को कारे से अपने सेताओं की सीमीश कारीन तारक सारकारी संस्थानों की उपविधी का 33(1) 5 के प्रारचानी के महत्त्वर आधार के कारों आपका दक्षिण है कि देश कार्यर दक्षा કબ્લિક કોનેશન નો કોનેશમ દેતું નોહિત વાતાનેન કબ્લન્સ નકાર્યે હતે કહે કોલ્યા ને કોનેશમ મેં તો મટ્ટે કામતિયોં ને નિકાનાય નક પાતન પ્રતિનેદન

करकार र २० करावार न अग्रान कराव प्राप्त करावार करावार के किया कर है जो के स्वर्ध के उत्तर की कार्यस्य में अग्रा किन्तु के एक अन्या में आवे हैं कि मेरा कहा को 1018-19 के विधीय फरू न सी विकास के उत्तर किए हैं के स्वर्ध में आप को है जात करकों से समित के इस के बीटर उपलब्ध कराती होतेन उसके पूर्व अग्राक सकारीता एर वर्गोकर सकारी संस्था नह सेवार के वे रोग्ने क्वरित हो समित के इस के बीटर उपलब्ध कराती होतेन उसके पूर्व अग्राक सकारीता एर वर्गोकर सकारी संस्था नह सेवार के ्रवार जनकर क, सम्बन्ध प्रकार क क भार प्रकार करावा सामन सका मूर्ग अगुक्त सहायोगा एर वर्गायक स्वकारी संस्थापे सह मिराय केन्द्र अवस्था हो होती 20.042002 एवंचवा संशोधन आरेता है...मिराय होता है की बीगल स्थित 26.06.2019 मेरिया पूरी सिंवासुस्तर के किस्टेट व्यवकारी कहानार प्रकेष अध्यक्ती स्थाप करें एवं यह के पीता उत्पाद आ कूर तक स्थित वक्त प्रपादक एन वजनकरकारीलय मेरे प्रस्तुर मनना अस्तियोगी है।

ফ.	रोरशा चा नाग	पंजीयन क्रगांक / दिशंक	लॉयल अकि. सर्वे	अल्मश् या नाग प गेरशा का रंगीकृत परा
1	2	3	4	5
1	उन्ति बीज राषा. सह. संस्था मर्वा, सिमरोल	2794/17.05.15	-	थी नैज़ास गंदरान, जान सिम्पोल निला इंदीर
2.	मं सरस्वती जेज उत्पा. सर. संस्था वर्षा., द्राीदा	2464/24.09.10	2016-17	श्री सामसिंह पटेन ग्राम द्वीदा वह, महीचिता, इन्हेंस
3.	मुंबत बीच तथा. सह. संस्था मणा,,तियतीटी	2899/01/02:17	-	थी गन्तरोसंह ग्राम निगनीटी निला, इन्देर
4.	सर्व्यं केंब इत्या. सह, इंस्था मर्चा, दहोदा	2858/19.01.17	-	ਸ਼ੀ ਸਮੇਕ ਬੁਲਾਕਰਸ਼ਾ ਵਰੇਵਾਰਟ, ਸਨੂੰ ਕਿਲਾ, ਹੁਵਰੈਸ
5.	क्रपरिय द्वीरेक एक. चेंक्क पूरी एक. संस्थ मर्ग, उपरिच	2036/34.7.16		भी बन्धर गरका प्राप स्थलीय के. लूबें कई किस, हंबीर
6.	चेरल बीसी पीपरी एडिंग्ड सह, संस्था मर्था, मंत्रतीय	2897/30/07.16	2017-19	वी चीरकल, प्राम मांगलीया थे. मेह विता, इंदीर
7.	मानुर एग्रीटेक सदः संज्या मर्चाः, गेक्कुंआ	2838/30.07.16	2017-18	श्री स्वनंद्र वर्षुति, ब्राम वेहकुआ पं. सुरी महं जिल इ.की:
н.	चेरल शांटिक कहा खेळा मधी, राजबह	2839/30.07.16	2017 B	श्री प्रेमिक्ट, बाम समगढ़ पलसमाट कड़ महूं, जिला इन्दौर
9.	अन्तर्भ योग उत्पा. सह, संस्था मर्वा, पातीवा	860/2806.02	-	श्री विकेन्द्र यादव सम पालीच तह. हातेद विला, इन्दौर
101.	હેનું ચીન તતા. ઘણ સંભાવમાં, વેતમપૂરા	2524/14.86.12		जितेन्द्र, प्राम पीत्यपुरा रूपायी चीराहा छहः देपालपुर जिला इच्छेर
11.	र्ख विद्धी विशवक जीज स्त्या. सह, संस्था गयां., सर्वेर	25/0/27/02/13	2016 1V, 17-18	थी डलॉन्ड दुने, इत्बार नामलेनस श्रीरे ते. प्र सन्ति
12.	पूर्व सब्दर्भ नाबोटेक वर्ष व्हांटेक क्षेत्र दत्या. सह संस्था नर्गा शिकाय	2840/04.08.16		ही तरण केलाब, बाग शिमागर जोशी पूर्वाद्वया गई
13.	मिरेता चीच रत्या. सह. प्रस्था गर्चा, मिरेता	2831/04.04.16	2016-17, 17-8	ज्ञाग विरोधा चट, देवालपुर
14.	शांदिय एमी बीच ठत्या. सह. संस्था मर्वा., कंदेनपुरा	2491/25.05.11	2012-18, 14 11	श्री सम्रोत समर, आम ओरंगाुरा देगालपुर
15.	र्थ मुख्यमा बीच उत्पा, सह संस्था मर्गा., बदा बोच्यय, इन्हेंस	109/05 39:13	-	श्री रिवनारावण मंगडदा, इत्यीर
16.	असर अन्तपूर्वा बीज तत्त्व, सह, रस्था मर्गा, देवलसर	124/05.39.13	2012-13 से 17-18 एक	प्रम पेनलीया देशगड पिनलीया स्थापह रह, देवलहर
17.	रंग चीन गता. सह, संस्था मती, अधानदा	2929/23.07.18	-	वी चाव्रहेश्वर पादव,सम् अयवदा वह, हावीद विका, बन्दी
18.	रावर चीज द्वारा. सह, संस्था गर्चा, क्यूरिया	2702/13.05.14	2017-18	श्री पंचनांशीत, ब्राग श्रवृतिया ततः, सचिर
IP.	बॉरन तरीने बीज गनर, सक, संस्था बजी, रिजलाय	2705/31.05.14	2015-16	भी बेंगमर परेक, सम्म रिक्सन कहा बजीर
20.	प्रतिशील बीच तत्त्व. सह. संस्त्व वर्षा., जोशी जुलदिया	2765/19.02.15	-	शीमने उम्पन्ती पटीदार, बार मोली पुरक्षिण तदः स्टू
21.	कत्या चीज त्या. यह. मंध्या वर्षा, पलदा	90/05/09/13		श्री दिवेश क्र(मानरूप, ग्राम शतदा जिला इन्दीर
22.	श्री करबार मीन चला, सह, ग्रीभा गर्जा,	2021/15.02.16	2016 17,	भी यने अपित प्रम मार सखेडी जत, नेपारपुर भिरा हानीर
	તત્વાહેડી		17.18	1

माना के राम के प्रमुख दोनत लेखानमें के अकेदण लोबत का निर्मालत है किया गयद होता है के शहीबत मानाओं हमा लोबत अलोक को करू के अकेखतों को संस्थ के वांकिद दस्तावेग जातक्य नहीं कराते वा रहे हैं। इससे माप्र, सहकारी संस्थाकी अपेनितम जो संस्था को वर्णाहत उपविभिन्ने के द्वारा निवारित करेजी एवं वाकियों का पतान करने 1 अपके द्वारा साराव निरमार चुक की जा रहिए तथा वैचित्रक प्रावधानी का दहका किया

ਜਿਸਲੀ ਬਚਿਕੀ ਸਤੇ ਸਭ, ਬਾਟਜ ਸਰਕਾਇ। ਕਿਸਾਜ ਦੀ ਅੰਦਿਸ਼ਜ਼ਸ ਨ. 5-4-94-15-1 ਵਿਸ਼ੰਦ 21/22.07. 995 के ਫ਼ਰ। ਸਨਹ ਹੈ का ਸਕੇਸ ਕਦੀ ਵਧ ाराध्या वाच्या पुर 15. तर तर राज्या का आया का आया है। अपन पर 15 कि में निर्देश की से अंग के अपन कर अपन कर अपन क पुर अपने यह काम काओं पुन 11-अब की कार्य पुर अभार प्रदेश करते हैं, तक पुन के अंग में आप माराध्या कार्या 55 अजन, 2019 को स्टामना विशिष्ठ में मेरे समझ प्रक: 11 क्यों का बीता सकता आहार (अपिका) सकतारेत विवाद करेंद्र में आधित के उन्हें कर 1 मिता विकेत तर अपना, भाग की विद्या कार्याक्रमा पात नहीं होने अध्या पात माराध्या गायाव्या की पाते पा आपने निर्दाश की अपने कार्या की अपने उन्हें कर कि विकेत कर अपना (1500) की सीत अधियोग्याकारें क्षेत्र की अध्या की विद्या करेंद्र की स्था वह करन कार्यों स्थान पात विनोध 24.07.2019 की मेरे इस्ताबर एवं कार्यावर्गन वद कुत से नामी निर्दाश कार्य

(पुरेश कामते) बद्धावन र्यजब्द्रा।(अंके.)

बक्कारी संस्थाएं, किया-इन्दीर